

स्नातक प्रथम सेमेस्टर (संस्कृत)  
विषय - संस्कृत

अभ्यास शृङ्खला - 02

निम्नलिखित प्रश्नों के आगे लिखे चार विकल्पों में से सही विकल्प को उत्तर के रूप में लिखें।

- 1- निम्नलिखित में से कौन सी शाखा शुक्ल यजुर्वेद की है-  
क - काण्व                      ख- मैत्रायणी                      ग - काठक                      घ- तैत्तिरीय
- 2- ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं-  
क- अध्वर्यु।                      ख- उद्गाता                      ग - होता।                      घ- ब्रह्मा
- 3- उपनिषद् शब्द में सद धातु का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है-  
क - नाश                      ख- गति                      ग - मुक्ति                      घ- अवसादन
- 4- भारतीय गणित के प्राचीनतम ग्रन्थ कौन कहलाते हैं -  
के - निरुक्त                      ख- शुल्बसूत्र                      ग- उपनिषद्                      घ- सामवेद
- 5- भारतीय गणित में हजार के लिए प्रयुक्त शब्द है-  
क - शत                      ख- सहस्र                      ग - अर्बुद                      घ- समुद्र
- 6 - वेदों में छन्दों की रचनाओं के लिए किस शास्त्र का आश्रय लिया जाता था-  
क - गणित                      ख- आयुर्वेद                      ग- संगीतशास्त्र                      घ - सामवेद
- 7- ललित कलाओं में निम्नलिखित में से किस की गणना नहीं होती-  
क - वास्तुकला                      ख- चित्रकला                      ग- संगीतकला                      घ - उपर्युक्त सभी की गणना होती है
- 8 - आयुर्वेद के विभिन्न अंगों, उपांगों का वर्णन किस वेद में प्राप्त होता है-  
क - ऋग्वेद                      ख - अथर्ववेद                      ग- सामवेद                      घ - यजुर्वेद
- 9- आयुर्वेद में सम्पूर्ण शरीर की चिकित्सा किसके अन्तर्गत आती है-  
क - कायचिकित्सा                      ख- बाल- चिकित्सा                      ग- शल्यचिकित्सा                      घ- विषचिकित्सा
- 10- आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ को क्या कहते हैं-  
क- मज्जा                      ख- त्रिधातु                      ग- धमनी                      घ- नाड़ी
- 11- चरक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं-  
क- 300                      ख- 360                      ग- 206                      घ- 200

- 12- सिद्धान्तकौमुदी किसकी रचना है-  
क - पाणिनि                      ख- पतञ्जलि                      ग- वरदराज                      घ- भट्टोजिदीक्षित
- 13- एच् प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं-  
क- ए ओ                      ख- ए ओ ऐ औ                      ग- ए ओ                      घ- ए ऐ
- 14- अष्टाध्यायी में लोप की परिभाषा दी गई है-  
क- अदर्शनं लोपः                      ख- तस्य लोपः                      ग- उपर्युक्त दोनों                      घ- दोनों में से कोई नहीं
- 15- किरातार्जुनीयम् किस कोटि का काव्य है-  
क- महाकाव्य                      ख- गीतिकाव्य                      ग- खण्डकाव्य                      घ- गद्यकाव्य
- 16- किरातार्जुनीयम् की कथा कहां से ली गई है-  
क- महाभारत                      ख- रामायण                      ग- ऋग्वेद                      घ- सामवेद
- 17- भर्तृहरि के तीन शतककाव्य में से निम्नलिखित कौन सा नहीं है  
क- वैराग्यशतक                      ख- शृङ्गारशतक                      ग- नीतिशतक                      घ- तन्त्रशतक
- 18- नीतिशतक में मौन किस का आभूषण बताया गया है  
क- पण्डितों का                      ख- मूर्खों का                      ग- सन्न्यासियों का                      घ- इनमें से किसी का नहीं
- 19- मालविकाग्निमित्रम् किसकी रचना है-  
क- वाल्मीकि।                      ख- कालिदास                      ग- बाणभट्ट।                      घ- भारवि
- 20- कुमारसम्भव महाकाव्य में प्रयुक्त पिनाकी शब्द का अर्थ है-  
क- नारद जी                      ख- हिमालय                      ग- भगवान् शंकर                      घ- कामदेव

उत्तर:

- 1- क, 2- ग, 3- ग, 4- ख, 5- ख, 6- क, 7- घ, 8- ख, 9- क, 10- ख,  
11- ख, 12- घ, 13- ख, 14- क, 15- क, 16- क, 17- घ, 18- ख, 19- ख, 20- ग